



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

9 माघ 1939 (श10)  
(सं० पटना 79) पटना, सोमवार, 29 जनवरी 2018

---

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

24 जनवरी 2018

सं० नि० प्रा०/ नि० 1-04/ 2012-83—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बाधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि०, पटना के निदेशक मंडल का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा अनुलग्नक-1 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि०, पटना के उनकी उपविधियों में यथावर्णित पदों के लिए सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 25.02.2018 (रविवार) की तिथि नियत करता है तथा निगम के डेलिगेटों से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन निदेशक मंडल के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-1271 दिनांक 22-12.2017 द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 30.11.2017 निर्धारित की गयी है, तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 10.01.2018 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति/निदेशक मंडल के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- (i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
- (ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
- (iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।
- (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, पद उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद रिक्त रहेंगे।
- (vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष पद बच जाते हैं, उन पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।
- (vii) किन्तु चूँकि निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या अध्यक्ष सहित 14 है, अतएव उनका आरक्षण आदर्श रोस्टर बिंदु के अनुसार किया जायेगा। तदनुसार संलग्न मानक प्रपत्र ई0-1 में आरक्षणवार पदों का उल्लेख कर दिया गया है।

निर्वाचन पदाधिकारी निदेशक मंडल के निर्वाचन के लिए संलग्न मानक प्रपत्र-ई०1 (अनुलग्नक-2) में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 30.01.2018 (मंगलवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त निगम के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र-ई० 6 में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई० 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स (0612-2231562, 2215089) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,

फूल सिंह,

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अनुलग्नक-1

बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि०, पटना के  
निदेशक मंडल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई० 1 में सूचना का प्रकाशन	30.01.2018 (मंगलवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	15.02.2018 (गुरुवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	16.02.2018 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी	17.02.2018 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	25.02.2018 (रविवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	25.02.2018 (रविवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)

## बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि०, पटना

## प्रपत्र- ई०-1

## सूचना का प्रपत्र

## (निदेशक मंडल के निर्वाचन के लिए)

बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि०, पटना का निर्बंधन संख्या....., पता .....  
 .....के निदेशक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है।

मैं.....(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-

## आम सूचना

- (i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या अध्यक्ष सहित 14 (चौदह) है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

अध्यक्ष- 1 पद (अनारक्षित)

निदेशक-13 पद-

- (i) अनुसूचित जाति/जनजाति- 2 पद, जिसमें महिला के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित
- (ii) अतिपिछड़ा वर्ग- 3 पद, जिसमें महिला के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित
- (iii) पिछड़ा वर्ग- 2 पद, जिसमें महिला के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित
- (iv) सामान्य वर्ग- 6 पद, जिसमें महिला के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित

- (ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय..... (स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में ..... (उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को.....  
 .....(स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक .....  
 .....(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

- (iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....  
 .....तक .....बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

- (iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....(स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी।

- (v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्न .....बजे के पूर्व तक .....  
 (स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है।

- (vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 07 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक होगा।

- (vii) मतगणना दिनांक.....को .....बजे से..... (स्थान का नाम) पर की जायेगी।

स्थान-

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि०, पटना के  
विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना

मतदान की तिथि - .....  
पद - .....  
मतपत्र का क्रमांक - .....

(यह निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतपत्र निर्गत करते समय अपने हाथ से भरा जायेगा। वर्ग विशेष में मतदाताओं की संख्या 100 से कम रहने पर क्रमांक-01, 02, 03 ..... आदि अंकित किया जायेगा, 100 से 999 रहने पर 001, 002, 003, ..... अंकित किया जायेगा तथा 999 से अधिक रहने पर 0001, 0002 ..... आदि अंकित किया जायेगा)।

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	यहाँ (✓) का चिह्न लगायें
1	2	3

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं सील

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,  
बिहार गजट (असाधारण) 79-571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>